



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 25 राँची, गुरुवार,

10 जनवरी, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

4 जनवरी, 2019

संख्या-06/न०वि०(TCPO)/भ०उ०वि०-05/2017-..72..,राज्य के शहरी क्षेत्रों में किए गए अनाधिकृत/विचलित निर्माण को स्थानीय प्राचालों (Parameters) को ध्यान में रखकर नियमितीकरण हेतु अधिनियम प्रारूप तैयार करने के निमित्त निम्नांकित रूप से एक उच्च स्तरीय अन्तर्गर्विभागीय समिति का गठन किया जाता है:-

क्र०	पदनाम	
1	निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2	नगर आयुक्त, राँची नगर निगम	सदस्य
3	नगर आयुक्त, गिरिडीह नगर निगम	सदस्य
4	अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग	सदस्य
5	अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग	सदस्य

6	मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
7	महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, झारखंड के प्रतिनिधि	सदस्य
8	संयुक्त निदेशक, योजना-सह-वित्त विभाग	सदस्य
9	उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
10	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
11	नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य सचिव

2. समिति विभिन्न राज्यों द्वारा इस संबंध में अधिसूचित अधिनियम/नियमावली/आदेश का अध्ययन कर झारखंड राज्य के स्थानीय प्राचार्यों के सापेक्ष अधिनियम प्रारूप नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेगी। इस क्रम में समिति संबंधित राज्यों का आवश्यकतानुसार भ्रमण भी कर सकती है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव
